



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ 1937 (श0)

(सं0 पटना 154) पटना, वृहस्पतिवार, 18 फरवरी 2016

पंचायती राज विभाग

आदेश

17 फरवरी 2016

सिवान जिलान्तर्गत मैरवा पंचायत समिति के विघटन तथा पंचायत समिति नौतन के पुनर्गठन के निमित्त

आदेश

सं0 4प/समि0-70-03/2015/31/पं0रा0—ग्रामीण विकास विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-9834 दिनांक 21.09.1998 के द्वारा सिवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखंड से कुछ ग्राम पंचायत क्षेत्रों को अलग कर नौतन प्रखंड सृजित करने तथा पंचायती राज विभाग की अधिसूचना, ज्ञापांक-1058 दिनांक 17.02.2016 द्वारा नौतन पंचायत समिति के गठन के फलस्वरूप सिवान जिलान्तर्गत मैरवा पंचायत समिति का विभाजन दो पंचायत समितियों, पंचायत समिति मैरवा एवं पंचायत समिति नौतन में हो गया है एवं इसके फलस्वरूप इनके स्वरूप एवं सीमाओं में भी परिवर्तन हुआ है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि मैरवा पंचायत समिति एवं नौतन पंचायत समिति का गठन नये सिरे से किया जाये। इस निमित्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) की धारा 151 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं:-

आदेश

1. सिवान जिलान्तर्गत मैरवा पंचायत समिति को दिनांक 18.02.2016 के प्रभाव से भंग किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि पंचायत समिति मैरवा एवं पंचायत समिति नौतन को पुनर्गठित किया जाये।
2. पंचायत निर्वाचन, 2011 में मैरवा पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य दिनांक 18.02.2016 के प्रभाव से अपने-अपने पद से मुक्त हो जायेंगे।

3. विघटित पंचायत समिति मैरवा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 151 (3) के अधीन जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 101 (1)/पं०रा०, दिनांक 22.11.2015 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पंचायत समिति मैरवा एवं पंचायत समिति नौतन के लिए अलग-अलग निम्नलिखित रूप से मनोनीत किया जाता है:-

(क) पंचायत समिति मैरवा

क्रमांक	पंचायत समिति सदस्य का नाम	विघटित पंचायत समिति एवं उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम/संख्या	
		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
1.	रेखा देवी	बड़का मांझा	मैरवा-11
2.	तारा देवी	कबीरपुर	मैरवा-13
3.	जनपद राज	कबीरपुर	मैरवा-14
4.	नूर नेशा	सेवतापुर	मैरवा-17
5.	रंजीता देवी	मुडीयारी	मैरवा-20
6.	गिरिजा देवी	बड़गाव	मैरवा-24
7.	रामरूप यादव	बड़गाव	मैरवा-25
8.	विजय साह	बभनौली	मैरवा-26
9.	संतोष कुमार राम	बभनौली	मैरवा-27
10.	अरुण कुमार साह	इंगलिश	मैरवा-28
11.	नरुल्लाह अंसारी	इंगलिश	मैरवा-29
12.	मानकी देवी	सेमरा	मैरवा-30

(ख) पंचायत समिति नौतन

क्रमांक	पंचायत समिति सदस्य का नाम	विघटित पंचायत समिति एवं उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम/संख्या	
		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
1.	हरेराम गुप्ता	मुरारपट्टी	मैरवा-1
2.	कुन्ती देवी	खाप बनकट	मैरवा-2
3.	कासिम मियां	नौतन	मैरवा-3
4.	श्रीराम यादव	नौतन	मैरवा-4
5.	अनिरुद्ध साह	खलवाँ	मैरवा-5
6.	दीनानाथ दीन	नरकटिया	मैरवा-6
7.	मोहन प्रसाद राजभर	सेमरिया	मैरवा-7
8.	श्रीकृष्ण सिंह	गंभीरपुर	मैरवा-8
9.	रामनाथ मांझी	अंगौता	मैरवा-9
10.	रीता देवी	मठिया	मैरवा-12

4. कंडिका-1 के अधीन गठित पंचायत समिति मैरवा एवं पंचायत समिति नौतन हेतु प्रमुख एवं उप-प्रमुख का निर्वाचन बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के अधीन अलग-अलग इन पंचायत समितियों के लिए सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों के बीच से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 तथा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 में यथा उपबंधित रीति से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। इस तरह से निर्वाचित प्रमुख/उप-प्रमुख की पदावधि कंडिका-6 में उल्लिखित निर्वाचन तक ही रहेगी।
5. कंडिका-1 के अधीन पुनर्गठित एवं स्थापित पंचायत समिति मैरवा एवं पंचायत समिति नौतन की कार्यावधि इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से विघटित पंचायत समिति मैरवा की शेष कार्यावधि या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अगला आम चुनाव कराये जाने की तिथि, जो पहले हो, तक होगी।
6. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 151 की उप-धारा (6) एवं उप-धारा (7) के अधीन इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से विघटित पंचायत समिति मैरवा की कार्यावधि जो माह मई, 2016 में समाप्त होगी, के पूर्व ही मैरवा एवं नौतन पंचायत समितियों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन एवं उनके सदस्यों का

निर्वाचन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 में यथा विहित रीति से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार राकेश,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 154-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>